

प्रतिदर्श प्रश्न-पत्र

सत्र-2025-26

कक्षा-10

वाणिज्य

संकेतांक-829

पूर्णांक-70

विषय कोड -935

समय: 3 घण्टा 15 मिनट

नोट-प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न-पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं।

निर्देश:- सभी प्रश्नपत्र अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक प्रश्नों के सम्मुख अंकित हैं। इस प्रश्न-पत्र के दो खण्ड हैं। खण्ड 'अ' में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, जिनके उत्तर ओ0एम0आर0 शीट पर देने हैं। ओ0एम0आर0 पर उत्तर अंकित किये जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। दूसरा खण्ड 'ब' में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं।

खण्ड 'अ'

बहुविकल्पीय प्रश्न-

1×20 (प्रत्येक 1 अंक)

(1)- निम्न में कौन सा व्यक्तिगत खाता है?

- (A) मशीन
- (B) वेतन
- (C) आहरण
- (D) इनमें से कोई नहीं

(2)-यदि अन्तिम रहतिया तलपट के अन्दर दिया गया हो, तो उसका लेखा किस खाते में किया जायेगा?

- (A) लाभ-हानि खाता
- (B) व्यापार खाता
- (C) रोकड़ खाता
- (D) आर्थिक चिट्ठा

(3)- बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है?

- (A) व्यापारी
- (B) बैंक
- (C) देनदार

(D) (लेनदार)

(4)– रेखांकित चेक का भुगतान–

(A) नकद मिल सकता है

(B) नकद नहीं मिल सकता है

(C) ग्राहक के खाते में जमा होता है

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

(5)– विनिमय–विपत्र के भुगतान में अनुग्रह दिवस होते हैं

(A) 2

(B) 3

(C) 5

(D) 6

(6)– अनुपस्थित कार्ड का प्रयोग किस फाइल में किया जाता है?

(A) कबूतर खाने वाली फाइल में

(B) तार फाइल में

(C) शैनन फाइल में

(D) खड़ी फाइल में

(7)– भारत में ई–मेल का प्रारम्भ कब हुआ?

(A) फरवरी 1992

(B) फरवरी 1993

(C) फरवरी 1994

(D) फरवरी 1995

(8)– कार्यालय में प्रयुक्त की जाने वाली छोटी–छोटी मशीनों से बचत होती है।

(A) समय की

(B) श्रम की

(C) समय व श्रम दोनों की

(D) इनमें से कोई नहीं

(9)– रेलवे बिलटी प्रलेख है।

(A) पूर्ण विनिमय साध्य

- (B) विनिमय साध्य
- (C) अर्द्ध विनिमय साध्य
- (D) इनमें से कोई नहीं

(10)–स्वयं सेवा पद्धति अपनायी जाती है

- (A) विभागीय भण्डार में
- (B) श्रृंखलाबद्ध भण्डार में
- (C) सुपर बाजार में
- (D) इन सभी में

(11)– बैंक का सामान्य कार्य कौन– सा है?

- (A) साधारण ऋण
- (B) पत्र–मुद्रा का निर्गमन करना
- (C) नकद साख
- (D) ऋण के रूप में उधार देना

(12)– भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मण्डल में सदस्य होते हैं।

- (A) 15
- (B) 20
- (C) 25
- (D) 30

(13)– निम्नलिखित में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत नहीं है?

- (A) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया
- (B) केनरा बैंक
- (C) देना बैंक
- (D) बैंक ऑफ बड़ौदा

(14)– भारत में सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ?

- (A) सन् 1901 में
- (B) सन् 1904 में
- (C) सन् 1903 में

(D) सन् 1905 में

(15)– देशी बैंकर पर नियंत्रण होता है–

(A) केन्द्रीय सरकार का

(B) भारतीय रिजर्व बैंक का

(C) भारतीय स्टेट बैंक का

(D) इनमें से कोई नहीं

(16)– जब सीमान्त उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता होती है–

(A) ऋणात्मक,

(B) धनात्मक

(C) सर्वाधिक

(D) शून्य

(17)– पूँजी का निर्माण निर्भर करता है

(A) व्यय पर

(B) आय पर

(C) बचत पर

(D) ये सभी

(18)– निम्न में कौन–सा उत्पादन का साधन नहीं है?

(A) भूमि

(B) श्रम

(C) वितरण

(D) पूँजी

(19)– सम्पत्ति का वह भाग जो उत्पादन में लगाया जाता हो, उसे कहते हैं–

(A) बचत

(B) संचय,

(C) पूँजी

(D) इनमें से कोई नहीं

(20)– सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक थे–

(A) गौसेन

(B) फ्रेडरिक

(C) मार्शल

(D) फ्रेजर

खण्ड 'ब'

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न–

2×5 (प्रत्येक 2 अंक)

1. रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक में अन्तर के कोई दो कारण लिखिए।
2. अनुक्रमणिका के चार लाभ या महत्व बताइये।
3. आधुनिक व्यवसाय में समय तथा श्रम की बचत करने वाले यन्त्रों के चार महत्व लिखिए।
4. भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के दो प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
5. निःसंचय से आप क्या समझते हैं?

लघु उत्तरीय प्रश्न:–

4×4 (प्रत्येक 4 अंक)

6. व्यापार खाते व लाभ–हानि खाते में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
7. थोक व्यापार तथा फुटकर व्यापार में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
8. रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य लिखिए।
9. व्यय व बचत में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:–

8×3 (प्रत्येक प्रश्न 8 अंक)

10. निम्नलिखित विवरण से 31 मार्च 2025 का व्यापार खाता लाभ–हानि खाता व आर्थिक निष्ठा बनाइये।

शीर्षक	डेबिट (रु०)	क्रेडिट (रु०)
प्रारंभिक राशियां	25,000	—
क्रय एवं क्रय वापसी	2,00,000	5,000
क्रय एवं विक्रय वापसी	2,000	2,80,000
मजदूरी	6,000	—
भाड़ा (आगत)	1,500	—
वेतन	15,000	—
किराया व कर	8,000	—
अशोध्य ऋण	2,000	—

निर्गत भाड़ा	3,000	—
पूँजी	—	1,12,000
कमीशन	1,000	1,500
लेनदार	—	12,000
देनदार	15,000	—
मशीनरी	30,000	—
भवन	60,000	—
रोकड़	42,000	—

निम्नलिखित समायोजनाएं कीजिए—

1. वर्ष का अन्तिम रहतिया—35,000
2. मजदूरी के रू० 200 अदत्त थे।
3. मशीनरी पर 10% ह्रास का प्रावधान कीजिए।
4. देनदारों पर 5% संचय का प्रावधान कीजिए।

अथवा

काल्पनिक आंकड़ों की सहायता से व्यापार एवं लाभ—हानि खाते का प्रारूप बनाइए।

11. काल्पनिक आंकड़ों की सहायता से बीजक का प्रारूप तैयार कीजिए।

अथवा

बीजक किसे कहते हैं? बीजक एवं सूचनार्थ बीजक को स्पष्ट कीजिए।

12. स्टेट बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए।

अथवा

उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या कीजिए।

